

SAFF चैंपियनशिप 2023

हाल ही में भारत ने बंगलूरु, कर्नाटक में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (SAFF) चैंपियनशिप 2023 में कुवैत को हराकर अपना 9वाँ खिताब हासिल किया।

SAFF चैंपियनशिप:

■ परिचय:

- SAFF चैंपियनशिप एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फुटबॉल टूर्नामेंट है जो [दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप](#) की टीमों को एक मंच पर लाता है। यह [दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ \(SAFF\)](#) द्वारा आयोजित [एशियाई फुटबॉल परिसंघ \(AFC\)](#) के तहत पाँच उप-संघों में से एक है।
 - SAFF का गठन वर्ष 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके किया गया था।
 - वर्तमान में SAFF सचिवालय ढाका, बांग्लादेश से संचालित होता है।

■ उत्पत्ति और विकास:

- संस्थापक सदस्य:
 - भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव।
- वसतिार:
 - भूटान इसमें वर्ष 2000 में सम्मिलित हुआ, जबकि अफगानिस्तान वर्ष 2015 में मध्य एशियाई फुटबॉल एसोसिएशन (CAFA) में शामिल होने से पहले वर्ष 2005 में इसका सदस्य बना।
- विकास:
 - दक्षिण एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1993 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) गोल्ड कप के रूप में हुई।
 - बाद में वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर दक्षिण एशियाई गोल्ड कप कर दिया गया और वर्ष 1997 से वर्ष 2005 तक यह परिवर्तित होकर SAFF गोल्ड कप बन गया।
 - वर्ष 2008 से इसे SAFF चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है।

भारत का प्रदर्शन:

■ पुरुष SAFF चैंपियनशिप:

- भारत टूर्नामेंट में पावरहाउस (अर्थात् एक ऐसी टीम जिसमें अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता हो) रहा है और यह वर्ष 2003 को छोड़कर सभी संस्करणों में फाइनल तक पहुँचा है।
- भारत ने 14 संस्करणों में से नौवीं SAFF चैंपियनशिप जीती।

Men's SAFF Championship winners list

Edition	Winner	Runners up
Lahore 1993	India	Sri Lanka
Colombo 1995	Sri Lanka	India
Kathmandu 1997	India	Maldives
Goa 1999	India	Bangaldesh
Dhaka 2003	Bangladesh	Maldives
Islamabad 2005	India	Bangladesh
Colombo and Male 2008	Maldives	India
Dhaka 2009	India	Maldives
New Delhi 2011	India	Afghanistan
Kathmandu 2013	Afghanistan	India
Thiruvananthapuram 2015	India	Afghanistan
Dhaka 2018	Maldives	India
Male 2021	India	Nepal
Bengaluru 2023	India	Kuwait

■ महिला SAFF चैंपियनशिप:

- भारत ने SAFF चैंपियनशिप में सफलता हासिल की है, इसने वर्ष 2010 में उद्घाटन संस्करण जीता और उसके बाद 2012, 2014, 2016 तथा वर्ष 2019 में जीत हासिल की।

Women's SAFF Championship winners list

Edition	Winner	Runners up
Cox's Bazar 2010	India	Nepal
Colombo 2012	India	Nepal
Islamabad 2014	India	Nepal
Siliguri 2016	India	Bangladesh
Biratnagar 2019	India	Nepal
Kathmandu 2022	Bangladesh	Nepal

स्रोत: द हिंदू

लघु वित्त बैंक

हाल ही में **भारतीय रज़िर्व बैंक** (RBI) ने सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिये उपयुक्त नहीं पाए जाने के कारण **लघु वित्त बैंकों** की स्थापना के लिये **तीन आवेदनों** को अस्वीकार करने के नरिणय की घोषणा की है।

- **यूनविर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग** के दशिया-नरिदेशों के तहत RBI को लगभग **एक दर्जन आवेदन** प्राप्त हुए थे।

लघु वित्त बैंक/स्मॉल फाइनेंस बैंक:

- **परचिय:**
 - भारत में SFB छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों तथा असंगठित क्षेत्र सहित आबादी के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ एवं ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिये स्थापित बैंकों की एक श्रेणी है।
 - ये भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा वनियिमति होते हैं।
 - उदाहरण: कैपटिल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, उत्कर्ष आदि।
 - **CRR और SLR** के रखरखाव की आवश्यकता सहित **मौजूदा वाणजियिक बैंकों** पर लागू रज़िर्व बैंक के सभी वविकपूर्ण मानदंड और वनियिम SFB पर भी लागू होते हैं।
 - इसके अलावा RBI के अनुसार, यदिकोई **SFB एक यूनविर्सल बैंक में स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है**, तो उसके पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिये प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिये।

नोट:

- **ऑन-टैप लाइसेंसिंग:** इसका मतलब है कि RBI से बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये वडिो पूरे वर्ष खुली रहती है या RBI किसी भी समय आवेदन स्वीकार कर बैंकों को लाइसेंस जारी कर सकता है।
- **CRR और SLR:** CRR का मतलब नकद आरक्षण अनुपात है तथा SLR का मतलब वैधानिक तरलता अनुपात है।
 - CRR और SLR दोनों **मौद्रिक नीति उपकरण** हैं जनिका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को वनियिमति एवं नयितरति करने के लिये कयिा जाता है।

- CRR के तहत वाणज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक नशिचति न्यूनतम जमा राशि (NDTL) आरक्षति रखनी होती है।
- SLR, जमा का न्यूनतम प्रतशित है जसि एक वाणज्यिक बैंक को नकदी, सोना या अन्य प्रतभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।

■ पात्रता:

- नविसी व्यक्त/पेशेवर (भारतीय नागरिक), अकेले या संयुक्त रूप से प्रत्येक के पास वरषिठ स्तर पर बैंकिग औरवतित के कषेत्र में कम-से-कम 10 वरष का अनुभव हो।
- नविसियों के स्वामतिव तथा नयितरण वाली कंपनियों और सोसायटी।
- सूक्ष्म वतित संस्थाएँ (Microfinance Institution), गैर-बैंकिग वतितीय कंपनियों (NBFC), स्थानीय कषेत्र के बैंक और भुगतान बैंक जैसी संस्थाएँ जो नविसियों द्वारा नयितरति होती हैं, वे भी लघु वतित बैंकों में परविरतति हो सकती हैं।
 - इसके अतरिक्त SFB में परविरतति होने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक (UCBs) दशिा-नरिदेशों का अनुपालन सुनशिचति करने के पश्चात् SFB में परविरतति हो सकते हैं।

■ प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता:

- लघु वतित बैंकों के लयि न्यूनतम भुगतान वाली वोटगि इक्वटी पूंजी 200 करोड़ रुपए होगी, ऐसे लघु वतित बैंकों को छोड़कर जो UCBs से परविरतति हुए हैं।

■ शासनादेश:

- प्राथमकिता प्रापुत कषेत्रों को उधारी: RBI के दशिा-नरिदेशों के अनुसार, लघु वतित बैंकों को अपने कुल शुद्ध ऋण का 75% प्राथमकिता प्रापुत कषेत्रों को उधारी के लयि आवंटति करना होता है।
 - उन्हें यह भी सुनशिचति करना होगा कउिनके ऋण पोर्टफोलयि का 50% भाग 25 लाख रुपए तक का अग्रमि हो।
 - एकल या समूहकि देनदार के लयि अधिकितम ऋण आकार और नविश सीमा उसके पूंजीगत कोष के क्रमशः 10% और 15% तक सीमति होगी।
- शाखा नेटवरक: SFBs को ग्रामीण और अरद्ध-शहरी कषेत्रों पर वशिष बल देने के साथ बैंक रहति और कम बैंकिग सुवधि वाले कषेत्रों में शाखाओं का एक नेटवरक स्थापति करने की आवश्यकता है।
 - प्रारंभ में उन्हें अपनी कम-से-कम 25% शाखाएँ बैंक रहति ग्रामीण कषेत्रों में स्थापति करनी होंगी।

■ वनियिमन:

- लघु वतित बैंक, कंपनी अधनियिम, 2013 के अंरतगत सार्वजनकि लमिटिड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं और साथ ही बैंकिग वनियिमन, 1949 की धारा 22 के अंरतगत लाइसेंस प्रापुत हैं।
- ये मुख्य रूप से बैंकिग वनियिमन अधनियिम, 1949 और RBI अधनियिम, 1934 एवं अन्य प्रासंगकि कानूनों द्वारा शासति होते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में लघु वतित बैंकों (एस.एफ.बी.) की स्थापना का उद्देश्य क्या है? (2017)

1. लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान करना।
2. लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराना।
3. युवा उद्यमियों को वशिष रूप से ग्रामीण कषेत्रों में व्यवसाय स्थापति करने के लयि प्रोत्साहति करना।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

स्रोत: इकनॉमकि टाइम्स

राज्यों में अग्नशिमन सेवाओं के वसितार और आधुनकिीकरण की योजना

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्नशिमन सेवाओं को मज़बूत करने के लयि राष्ट्रीय आपदा प्रतकिरयि कोष (NDRF) के अंरतगत "राज्यों में अग्नशिमन सेवाओं के वसितार और आधुनकिीकरण की योजना" (Scheme for Expansion and Modernization of Fire

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना:

- **परिचय:**
 - इस योजना की उत्पत्ति **पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC)** की सफारिश से हुई है, जो तैयारियों और क्षमता निर्माण की फंडिंग सुविधा के लिये **NDRF** और **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)** में से प्रत्येक के 12.5% हिस्से के आवंटन की अनुमति देता है।
- **उद्देश्य:**
 - योजना का उद्देश्य **राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है** ताकि NDRF की तैयारियों तथा क्षमता-निर्माण घटकों के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की गतिविधियाँ सुनिश्चित की जा सकें।
- **कोष आवंटन:**
 - NDRF के कुल कोष में से 5,000 करोड़ रुपये की राशि प्राथमिकता के तौर पर "अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" के लिये निर्धारित की गई थी।
 - कुल परिसर में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके **कानूनी और बुनियादी ढाँचे-आधारित सुधारों** के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिये रखी गई है।
- **फंडिंग पैटर्न:**
 - योजना के अंतर्गत परियोजनाओं या प्रस्तावों को उनके बजटीय संसाधन आधार पर धन की मांग करने के लिये संबंधित **राज्य सरकारों को ऐसी परियोजनाओं या प्रस्तावों की कुल लागत का 25%** [उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (NEH) राज्यों को छोड़कर, जो 10% का योगदान देते हैं] योगदान करना होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF):

- **गठन:**
 - वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता नधि (NCCF)** का नाम बदलकर **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष/नधि (NDRF)** कर दिया गया।
 - इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM अधिनियम) की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
 - इसे भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "ब्याज रहित आरक्षण नधि" के अंतर्गत रखा जाता है।
 - **लोक लेखा:** इसका गठन **संवधान के अनुच्छेद 266(2)** के अंतर्गत किया गया था। यह उन लेन-देन के प्रवाह का लेखा-जोखा रखता है जहाँ सरकार केवल एक बैंक के रूप में कार्य कर रही है। उदाहरणस्वरूप भविष्य नधि, लघु बचत आदि।
- **भूमिका:**
 - किसी भी गंभीर आपदा की स्थिति या आपदा के कारण **आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास** के खर्चों को पूरा करने के लिये **केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधन** किया जाता है।
 - यह प्रकृतिक गंभीर आपदा स्थिति में SDRF को पूरक बनाता है, बशर्ते **SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो**।
 - SDRF अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया हेतु राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक नधि है ताकि तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किसी भी प्रकार के व्यय को पूरा किया जा सके।
- **वित्तपोषण:**
 - कुछ वस्तुओं पर उपकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाकर वित्तपोषित किया जाता है तथा **वित्त वधियक** के माध्यम से वार्षिक मंजूरी दी जाती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 06 जुलाई, 2023

OPEC में शामिल होने हेतु चार नए देशों के साथ वार्ता

हाल ही में **पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC)** के महासचिव ने बताया कि संगठन में शामिल होने के लिये चार नए देशों **अज़रबैजान, मलेशिया, बुरुनेई और मैक्सिको** के साथ चर्चा चल रही है। OPEC की स्थापना वर्ष 1960 में संस्थापक सदस्यों **ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला** के साथ हुई थी जसिमें अब **13 सदस्य देश** शामिल हैं। OPEC विश्व भर में लगभग 30% **कच्चे तेल** का उत्पादन करता है तथा इसके सदस्यों का वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार में लगभग 60% हिस्सा है। वर्ष 2016 में OPEC ने अपने संगठन का विस्तार करने के लिये 10 प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल कर **OPEC+** का गठन किया था। OPEC+ में **अज़रबैजान, बहरीन, बुरुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और**

सूडान के साथ 13 OPEC सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना, तेल बाज़ार को स्थिर करना, उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना, उत्पादकों को वश्वसनीय आय प्रदान करना तथा पेट्रोलियम उद्योग में निवेश पर उचित रटिर्न प्रदान करना है। OPEC का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है।

WORLD

OPEC Member Countries



और पढ़ें... [पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन \(OPEC\)](#)

बचपन में मधुमेह और मृत्यु के मामले में भारत वैश्विक चार्ट में शीर्ष पर

JAMA नेटवर्क जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत में वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर बचपन में मधुमेह के मामलों और मृत्यु की सबसे अधिक संख्या देखी गई। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि [वैश्व स्वास्थ्य संगठन](#) के अनुसार, भारत में वकिलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (Disability-Adjusted Life Years- DALYs) भी सबसे अधिक है, जो पूर्ण स्वास्थ्य के एक वर्ष के नुकसान को दर्शाता है। वर्ष 1990 के बाद से बचपन में मधुमेह के मामलों में 39.4% की वृद्धि हुई है, वर्ष 2019 में 2,27,580 मामले और 5,390 मौतें दर्ज की गईं। बच्चों में [टाइप 2](#) मधुमेह बढ़ रहा है और यह खराब जीवनशैली, वैश्विक स्तर पर बच्चों के मोटापे तथा माता-पिता के मधुमेह के इतिहास से जुड़ा है। बचपन में मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जहाँ बच्चे का शरीर इंसुलिन का उत्पादन या उपयोग ठीक से नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ऊर्जा के लिये रक्त से शर्करा को कोशिकाओं में ले जाने में सहायता करता है। बचपन में मधुमेह के दो मुख्य प्रकार हैं: [टाइप 1](#) और [टाइप 2](#)।

और पढ़ें... [टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह के लिये नया इंजेक्शन](#)

जमिक्स 23

द्विपक्षीय [जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023](#) (JIMEX 23) का सातवाँ संस्करण 5 से 10 जुलाई, 2023 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित हो रहा है। जमिक्स 23 जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) और भारतीय नौसेना की इकाइयों को एक साथ लाता है। इस अभ्यास में विभिन्न नौसैनिक संपत्तियों जैसे- नरिदेशित मिसाइल वधिवंसक, कार्वेट, [पनडुबबी](#), समुद्री गश्ती विमान एवं हेलीकॉप्टर की भागीदारी शामिल है।



और पढ़ें... [जापान-भारत समुद्री अभ्यास](#), [सामुद्रिक सुरक्षा](#)

DGCA इंडिया और EASA संयुक्त रूप से मानवरहति विमानन प्रणाली का विकास करेंगे

भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) ने मानव रहति विमान प्रणालियों तथा नवाचारी वायु परिवहन प्रणालियों पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौता ज्ञापन में **कार्मियों के लिये लाइसेंसिंग, प्रशिक्षण, हवाई यातायात प्रबंधन, बुनियादी ढांचा और मानव रहति विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (UTM)** मानकों एवं सेवाओं की स्थापना करना शामिल है।

और पढ़ें... [नागरिक उड्डयन महानिदेशालय](#), [मानव रहति विमान प्रणाली](#)